

**Relationship**  
Relationship

**Remedies E Book**  
Remedies E Book

# Astro Deepak

Tarun Nagpal

**Master in Astrology**

## परिचय

हम सभी अपने रिश्तों में सुख, शांति, और प्रेम की उम्मीद करते हैं। लेकिन कभी-कभी हमारे रिश्तों में छोटी-मोटी समस्याएँ आ जाती हैं, जिनका कारण हमें समझ में नहीं आता। यह ई-बुक आपको ऐसे ही कुछ सरल, प्रभावी और सुरक्षित उपाय बताएगी जो आपके रिश्तों में शांति और सामंजस्य को बढ़ा सकते हैं। इनमें मंत्र, दान, पूजा, शांति विधान और विशेष गतिविधियाँ शामिल हैं। सरल भाषा में दी गई ये जानकारी किसी भी व्यक्ति के लिए समझना आसान है, फिर चाहे उन्होंने कभी ज्योतिष का अध्ययन न किया हो।

---

## रोज़ के झगड़े और तनाव कम करने के उपाय

### 1. अगर रिश्तों में रोजाना मतभेद होते हैं:

- **शांति मंत्र जाप:** हर सुबह "ॐ शांति" मंत्र का 108 बार जाप करें।
- **मिठाई का दान:** हर शुक्रवार को किसी जरूरतमंद को मिठाई या दूध से बने पदार्थ का दान करें। इससे आपके संबंधों में मधुरता आएगी।
- **सफेद फूल:** सोमवार को सफेद फूल भगवान शिव को अर्पित करें। यह आपके रिश्तों में संतुलन लाता है।

### 2. अगर रिश्तों में लगातार असहमति हो रही हो:

- **पीले वस्त्र पहनें:** गुरुवार को पीले रंग के कपड़े पहनें और किसी गरीब को पीले कपड़े दान करें।
  - **गाय को चारा खिलाना:** हर गुरुवार को गाय को हरा चारा खिलाएं, जिससे रिश्तों में स्थिरता बनी रहती है।
  - **मंदिर में हल्दी चढ़ाएं:** गुरुवार को किसी मंदिर में हल्दी अर्पित करें।
- 

## टूटते हुए रिश्तों को बचाने के उपाय

### 1. रिश्ते में अलगाव से बचने के उपाय:

- **मंत्र जाप:** "ॐ नमः शिवाय" का 108 बार जाप करें।
- **गुलाब का फूल:** शुक्रवार को माता लक्ष्मी को गुलाब का फूल अर्पित करें। इससे प्रेम बना रहता है।
- **मधुर शब्दों का आदान-प्रदान:** हर सुबह अपने साथी के लिए एक अच्छा शब्द कहें या लिखें।

## 2. दूरी कम करने के लिए उपाय:

- दूध और चावल का दान: सोमवार को मंदिर में दूध और चावल का दान करें।
- प्रातः ध्यान: हर सुबह जल्दी उठकर 10 मिनट ध्यान करें,
- गुरुवार का व्रत: हर गुरुवार व्रत रखें।

---

## विवाह और प्रेम संबंधों में तनाव कम करने के उपाय

### 1. सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाने के उपाय:

- मंत्र: "ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं" का प्रतिदिन 21 बार जाप करें।
- चंदन स्नान: शुक्रवार को स्नान करते समय पानी में चंदन मिलाकर स्नान करें।
- सफेद और गुलाबी फूल: शुक्रवार को माता लक्ष्मी के चरणों में सफेद और गुलाबी फूल अर्पित करें

### 2. बाधाओं को दूर करने के उपाय:

- मिट्टी का दीपक जलाएं: हर मंगलवार को शाम में मिट्टी का दीपक जलाएं।
- नीला या काला कपड़ा न पहनें: बुधवार को नीले और काले रंग के कपड़ों से बचें।
- बांसुरी का दान: शुक्रवार को मंदिर में बांसुरी अर्पित करें,

---

## व्यक्तिगत सलाह से सर्वोत्तम परिणाम पाएं

ऊपर दिए गए उपाय सामान्य संबंध समस्याओं में सहायक हैं, लेकिन किसी भी उपाय का प्रभाव तभी सटीक होता है जब उसे आपके कुंडली में ग्रहों की स्थिति और समय के अनुसार अपनाया जाए। हर व्यक्ति की कुंडली में ग्रहों का प्रभाव अलग-अलग होता है। इसलिए, सही उपाय चुनने के लिए कुंडली का अध्ययन जरूरी है।

यदि आप अपने संबंधों में पूर्ण स्थिरता और प्रेम बनाए रखना चाहते हैं, तो मेरे साथ ज्योतिषीय परामर्श लें। आपकी कुंडली के अनुसार, हम विशेष और सटीक उपाय बताएंगे जो आपकी परिस्थितियों में कारगर होंगे।

**अपनी कुंडली के विश्लेषण और व्यक्तिगत परामर्श के लिए आज ही संपर्क करें और अपने संबंधों में सकारात्मक बदलाव लाएं!**

**Contact us**

**Astrologer Tarun Nagpal**

[Consult.astroguidedeeepak@gmail.com](mailto:Consult.astroguidedeeepak@gmail.com) or [astroguidedeeepak@gmail.com](mailto:astroguidedeeepak@gmail.com)

**+91 9873570047**

**Visit to book consultation: [www.astrodeepak.in](http://www.astrodeepak.in)**

## Introduction

We all hope for happiness, peace, and love in our relationships. But sometimes, despite our best efforts, we face issues in our relationships that we can't easily understand or resolve. This eBook provides easy, effective, and safe remedies to help bring peace and harmony to your relationships. These remedies include mantras, donations, rituals, and other activities, all written in a way that's easy for anyone to understand—even if they have no knowledge of astrology.

---

## Remedies to Reduce Everyday Conflicts and Tensions

### 1. For daily arguments and stress:

- **Shanti Mantra Chant:** Every morning, chant "ॐ शान्ति" 108 times.
- **Donation of Sweets:** Donate sweets or milk-based items to someone in need every Friday.
- **Offer White Flowers:** On Mondays, offer white flowers to Lord Shiva..

### 2. If you face continuous disagreements in relationships:

- **Wear Yellow Clothes:** Wear yellow on Thursdays and donate yellow clothes to a person in need. This strengthens relationships.
  - **Feed Green Fodder to Cows:** Offer green fodder to cows every Thursday..
  - **Offer Turmeric at the Temple:** On Thursdays, offer turmeric at a temple.
- 

## Remedies to Prevent Relationship Breakdowns

### 1. To avoid separation in relationships:

- **Mantra Chanting:** Chant "ॐ नमः शिवाय" 108 times.
- **Offer a Rose Flower:** On Fridays, offer a rose flower to Goddess Lakshmi. This enhances love.
- **Exchange Kind Words:** Every morning, say or write something kind about your partner.

### 2. To reduce distance in love or marriage:

- **Donation of Milk and Rice:** Donate milk and rice at a temple every Monday.
  - **Morning Meditation:** Practice 10 minutes of meditation every morning to bring calmness relationships.
  - **Fast on Thursdays:** Observing a fast on Thursdays.
- 

## Remedies to Reduce Stress in Love and Marriage

### 1. To enhance positive energy:

- **Mantra Chanting:** Chant "ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं" 21 times daily.
- **Bath with Sandalwood:** Add a few drops of sandalwood to your bath water on Fridays.
- **Offer White and Pink Flowers:** Offer white and pink flowers to Goddess Lakshmi on Fridays.

### 2. To remove obstacles:

- **Light a Clay Lamp:** Light a clay lamp every Tuesday evening.
  - **Avoid Blue or Black Clothes:** Avoid wearing blue or black clothes on Wednesdays to help reduce obstacles in relationships.
  - **Donate a Flute:** Offer a flute at a temple on Fridays.
- 

## Personalized Guidance for Best Results

While these general remedies can support relationship peace, each remedy is most effective when customized to the timing and planetary positions in your birth chart. Every individual's horoscope is unique, and remedies tailored to the specific positions of planets will yield the best results.

If you wish to bring long-lasting peace and harmony to your relationships, consider scheduling an astrology consultation with me. Based on your unique birth chart, we will identify precise remedies that suit your specific circumstances.

**Contact us today for a personalized astrology consultation and start seeing positive changes in your relationships!**

**Contact us**

**Astrologer Tarun Nagpal**

**[Consult.astroguidedeeepak@gmail.com](mailto:Consult.astroguidedeeepak@gmail.com) or [astroguidedeeepak@gmail.com](mailto:astroguidedeeepak@gmail.com)**

**+91 9873570047**

**Visit to book consultation: [www.astrodeepak.in](http://www.astrodeepak.in)**